



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-09-2020

उधमसिंह-नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-09-29 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-02	2020-10-03	2020-10-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	50	50	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	8.0	12.0	12.0	12.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	310	330	330	330
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (22 - 28 सितम्बर, 2020) में 26.5 मिमी वर्षा होने व आसमान में आंशिक से घने बादल छाये रहे। अधिकतम तापमान 31.5 से 36.5 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 21.9 से 25.1 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 84 से 92 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 57 से 72 प्रतिशत एवं हवा 0.2 से 4.1 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.0 से 33.0 व 20.0 से 21.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगामी सप्ताह 05.10.2020 से 11.10.2020 के दौरान जिले में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना नहीं है अतः किसान भाई गन्ना व सब्जियों आदि फसलों में उचित नमी बनाए रखें। किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत ऐप को गूगल प्ले स्टोर (ऐंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में वर्षा की सम्भावना नहीं है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की शीघ्र एवं मध्यम अवधि वाली किस्मों में बालियों के सुनहरें रंग प्राप्त होने की अवस्था में कटाई करें। कटाई में विलम्ब होने पर फसल के गिरने व बालियों में दाना झड़ने का अंदेशा रहता है। धान की फसल की कटाई से 10-15 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दें। इससे कटाई के समय दानों में नमी की मात्रा करीब 20 प्रतिशत हो जाती है तथा करीब 10-15 से0मी0 सिंचाई की बचत होती है और फसल 2-3 दिन पहले ही कटाई योग्य हो जाती है।
चारा मक्की	चारा की फसल से अतिरिक्त पानी निकाल दे जिससे खेत सूख जाये तथा गिरी हुई फसल उठ सके।
गन्ना	गन्ने की बुवाई का कार्य जारी रखे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आँवला	जैसा कि आंवले में फल वृद्धि शुरू हो गयी है अतः अच्छी गुणवत्ता के फल हेतु बोरैक्स 200-250 ग्राम प्रति वृक्ष थालों में प्रयोग करें।
आम	आम के विल्ट की समस्या को नियंत्रित करने के लिए थायोफनेट मिर्थाइल (70 प्रतिशत डब्लू पी) को 2 ग्राम/लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ की ड्रेचिंग 10 दिन के अन्तराल पर करें। तथा स्वस्थ पौधों को कॉपर सल्फेट के 1 किग्रा /पौधे की दर से उपचारित करें। इस समस्या से बचाव हेतु आम के बाग का उचित पोषण भी बहुत आवश्यक है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	इस महीने से मौसम में बदलाव आ रहा है, इसलिए, सर्दियों की शुरुआत से जानवरों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन पशुओं में एफ0एम0डी0 (मुखपका खुरपका) रोग के टीके नहीं लगे हैं उन पशुओं में तत्काल टीकाकरण करा लें। ताकि आपका पशुधन स्वस्थ रहे और उस से सही उत्पादन प्राप्त हो सके।